

प्रेस नोट दिनांक – 29.08.2021

इटावा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 8.5 किग्रा अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया

जनपद इटावा में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर इटावा के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 8.5 किग्रा अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था जिसके क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में आज दिनांक 29.08.2021 को थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा अभियान के क्रम में जोधपुर चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चैकिंग की जा रही थी , तभी सितौरा की तरफ से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति आता दिखायी दिया । जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया । तो उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया गया । जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर सितौरा रोड से गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बोरे में लगभग 8.5 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पवन उर्फ जोर सिंह पुत्र स्व० अतर सिंह निवासी नगला बूसा थाना इकदिल इटावा बरामदगी-

1. 8.5 किग्रा अवैध गांजा

2. 01 पल्सर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 75 यू 0431

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 263/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकदिल इटावा *पुलिस टीम-* निरी० श्री रमेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल, उ०नि० श्री अवधेश कुमार, का० मंयक शर्मा, का० अजय सिंह , का० संजय कुमार

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा

